



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 522]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 1981/अग्रहायण 3, 1903

No. 522] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 1981/AGRAHAYANA 3, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1981

कां०भा० 827(अ)/18ए०/औ०वि०वि०भा०/80.—भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० कां०भा० 725 (अ)/18ए०/औ०वि०वि०भा०/72, तारीख 25 नवम्बर, 1972 (जिसे इससे आगे, उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स इण्डिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का 24 नवम्बर, 1977 तक की, जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, के लिए प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए एक प्रबन्ध बोर्ड को प्राधिकृत किया गया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० कां०भा० 630(अ)/18ए०/औ०वि०वि०भा०/77, तारीख 24 अगस्त, 1977 द्वारा उक्त आदेश को उपास्तरीत किया गया था और भारत का औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० कां०भा० 784(अ)/18ए०/औ०वि०वि०भा०/77, तारीख 24 नवम्बर, 1977 द्वारा उक्त आदेश की प्रवधि 24 नवम्बर, 1979 तक जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, के लिए बढ़ा दी गई थी,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० कां०भा० 747(अ)/18ए०/औ०वि०वि०भा०/79, तारीख

22 नवम्बर, 1979 द्वारा उक्त आदेश की प्रवधि 24 नवम्बर, 1980 तक जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, के लिए बढ़ा दी गई थी;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० कां०भा० 900(अ)/18ए०/औ०वि०वि०भा०/80, तारीख 21 नवम्बर, 1980 द्वारा उक्त आदेश की प्रवधि 24 नवम्बर, 1981 तक जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, के लिए बढ़ा दी गई थी;

और, अब, केन्द्रीय सरकार की राय में उक्त आदेश की प्रवधि 24 मई, 1982 तक की प्रवधि के लिए जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, और बढ़ाया जाना लोकहित में समीचीन है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश करती है कि उक्त आदेश 24, मई, 1982 तक, जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, की प्रवधि के लिए और प्रभावी रहेगा।

[फा०सं० 2(11)/80-सी०यू०एस०]

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY  
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 24th November, 1981

S.O. 827(E)/18A/IDRA/81.—Whereas by the order of the Government of India in the late Ministry of Industrial

Development No. S.O. 725(E)/18A/IDRA/72, dated the 25th November, 1972 (hereinafter referred to as the said order), a Board of Management was authorised to take over the whole of the Industrial undertaking known as Messrs India Machinery Company Limited, Howrah, for a period of five years upto and inclusive of 24th November 1977;

And whereas the said order was modified by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 630(E)/18A/IDRA/77, dated the 24th August, 1977, and the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta was authorised to take over the management of the said undertaking;

And whereas the duration of the said order was extended by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 784(E)/18A/IDRA/77; dated the 24th November, 1977, for a further period upto and inclusive of 24th November, 1979;

And whereas the duration of the said order was extended by the order of the Government of India in the Ministry of

Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 747(E)/18A/IDRA/79, dated 22nd November, 1979, for a further period upto and inclusive of 24th November, 1980;

And whereas the duration of the said order was extended by the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 900(E)/18A/IDRA/80 dated 21st November, 1980, for a further period upto and inclusive of 24th November, 1981;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the duration of the said order should be extended for a further period upto and inclusive of the 24th May, 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 24th May, 1982.

[File No. 2(11)/80-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.